



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 492]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1976/कार्तिक 25, 1898

No. 492]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1976/KARTIKA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November 1976

S.O. 735(E)/IDRA/29B/75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and the rules made thereunder all industrial undertakings pertaining to any of the industries specified in the Schedule to this notification, subject to the following conditions, namely:—

1. The articles of manufacture shall not be an article specified in Schedule I to the notification of the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973 as amended from time to time.
2. The industrial undertaking shall not require imported raw materials or imported capital goods or involve foreign collaboration.
3. The industrial undertaking does not fall within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) or within the purview of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

This is in addition to and not in derogation of notification No. S.O. 98E/IDRA/29B/73/1, dated 16th February, 1973 of the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development).

### SCHEDULE

1. Sanitary ware.
2. H. T. Insulators.
3. Tile of size 4"×4" and above.

[No. F. 12(17)/LP/76]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

**उद्योग मंत्रालय**  
**(औद्योगिक विकास विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1976

**का० प्रा० 735 (अ) आई० बी० आर० ए०/29ख/75.**—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों में से किसी से सम्बन्धित सभी औद्योगिक उपक्रमों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क और 13 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से छूट देती है, अर्थात् :—

1. विनिर्माण की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं नहीं होंगी जो भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) को समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 98प्र/उ० बी० बी० अ०/29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।
2. औद्योगिक उपक्रम आयातित कच्चे माल या आयातित पूंजी माल की अपेक्षा नहीं करेगा या विदेशी सहयोग अन्तर्बलित नहीं करेगा।
3. औद्योगिक उपक्रम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के क्षेत्र में नहीं आता है।

यह भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 98प्र/उ० बी० बी० अ०/29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 के अतिरिक्त है, न की उसके अल्पीकरण में।

**अनुसूची**

1. स्वच्छता पात्र।
2. एच० टी० रोधी।
3. 4"X4" और इससे बड़े आकार के खपरेल।

[सं० [का० 12(17)/एल० पी०/76]

अरूण कुमार घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976